



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7—जनवरी 13, 2006 (पौष 17, 1927)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7—JANUARY 13, 2006 (PAUSA 17, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560094, दिनांक 22 नवम्बर 2005

सं. 5/1(2)/2005-I.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं:—

| क्रम सं. | नाम                 | पदनाम                     | त्याग पत्र की तिथि |
|----------|---------------------|---------------------------|--------------------|
|          | श्री/श्रीमती/कु.    |                           |                    |
| 1.       | डॉ. के. बदरी नारायण | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. एफ | 28.02.2005         |
| 2.       | भुवनेश्वरी के. आर.  | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी | 28.02.2005         |
| 3.       | सुधा कं. एस.        | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी | 10.03.2005         |
| 4.       | पंकज कुमार झा       | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी | 18.03.2005         |
| 5.       | मनोज कुमार यूके     | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी | 24.01.2005         |
| 6.       | निधि अरोरा          | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी | 02.02.2005         |

मो. इक्रामुल्ला, अवसर सचिव

सं. 5/1(2)/2005-I.—श्री एम. एल. एन. शास्त्री ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. जी. के पद का कार्यभार दिनांक 28.02.2005 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

मो. इक्रामुल्ला, अवसर सचिव

सं. 5/1(1)/2005-I.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. सी को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. डी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:—

| 1  | 2                |
|----|------------------|
|    | श्री/श्रीमती/कु. |
| 1. | जे. कलै सेल्वि   |
| 2. | संजय मिट्टिल     |
| 3. | संजोय परमानिक    |
| 4. | बी. सुब्रह्मण्यम |

| 1   | 2                    |
|-----|----------------------|
|     | श्री/श्रीमती/कु.     |
| 5.  | ललिता. के            |
| 6.  | तिरुमला राव कोका     |
| 7.  | एस. मुरुगय्या        |
| 8.  | बीनु. डी             |
| 9.  | राजेश्वरी            |
| 10. | चित्रा. एन.          |
| 11. | के. एन. श्यामला देवी |
| 12. | के. श्रीशन           |

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2005-1.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. डी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. ई. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

| 1   | 2                         |
|-----|---------------------------|
|     | श्री/श्रीमती/कु.          |
| 1.  | दिनेश चन्द्र              |
| 2.  | ए. अचमांबा                |
| 3.  | संतोष हेब्बार. पी.        |
| 4.  | जसवंत वी. एस.             |
| 5.  | श्री निवास साहु           |
| 6.  | वी. वेंकट रेड्डी          |
| 7.  | जे. मदन मोहन रेड्डी       |
| 8.  | राजेन्द्र सिंह पी. व्याली |
| 9.  | जयसिंह पी.                |
| 10. | बिजय कुमार ब्रेहरा        |
| 11. | दिनकरन ई.                 |
| 12. | डी. पुल्लैय्या            |
| 13. | बी. लक्ष्मी नारायण        |
| 14. | बिन्दु के. आर.            |
| 15. | टी. एस. सिद्धराजा         |

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2005-1.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. ई. को

वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.एफ. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

| 1  | 2                  |
|----|--------------------|
|    | श्री/श्रीमती/कु.   |
| 1. | एम. वेंकटनायण      |
| 2. | एम. एस. श्रीनिवासन |
| 3. | ओ. वी. राघव रेड्डी |
| 4. | एस. सत्य निरंजन    |
| 5. | परमजीत सिंह        |
| 6. | एल. सुवर्ण         |
| 7. | एल. मृत्युन्जया    |
| 8. | एम. नीलावती        |

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2005-1.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. एफ. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. जी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

| 1  | 2                          |
|----|----------------------------|
|    | श्री/श्रीमती/कु.           |
| 1. | प्रदीप कुमार गुप्ता        |
| 2. | पी. जे. वी. एस. प्रकाश राव |
| 3. | एम. वेंकटेश्वर राव         |
| 4. | यू. प्रभाकरन               |
| 5. | अन्नी नेलसन                |
| 6. | के. एस. बालन               |
| 7. | एम. सुकुमार                |
| 8. | एच. एन. भगवान              |

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2005-1.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. सी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. डी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

| 1  | 2                |
|----|------------------|
|    | श्री/श्रीमती/कु. |
| 1. | के. लक्ष्मय्या   |
| 2. | पी. वी. जितेश    |
| 3. | विद्या वी.       |

| 1   | 2                      |
|-----|------------------------|
|     | श्री/श्रीमती/कु.       |
| 4.  | मो. अफज़ल उसमानी       |
| 5.  | गोमती सारथा सी.        |
| 6.  | अजय अंधीवाल            |
| 7.  | पंकज कुमार झा          |
| 8.  | पी. विजयश्री           |
| 9.  | आर. जोती               |
| 10. | यू. रमा सुब्रमणियम     |
| 11. | नारायण स्वामी. एच. पी. |

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2005-I.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:—

| क्रम सं. | नाम                   | पद जिससे पदोन्नति की गई   | पद जिस पर पदोन्नति की गई  |
|----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|          | श्री/श्रीमती/कु.      |                           |                           |
| 1.       | रमानन्द त्यागी        | वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी     | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच     |
| 2.       | चक्रपाणी नावडा के.    | वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी     | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच     |
| 3.       | के. सूर्यनारायण शर्मा | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. जी | वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी     |
| 4.       | बी. वेंकट राव         | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. जी | वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी     |
| 5.       | बी. एस. नटराजु        | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. जी | वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी     |
| 6.       | टी. नागेन्द्र         | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. बी | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी |

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

सं. ए-19015/5/94.प्रशासन V.—राष्ट्रपति, नेशनल सेन्टर ऑफ आरेंगानिक फार्मिंग, गाजियाबाद में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन होने पर श्री शशि पाल की सेवाएं, दिनांक 01 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में अनुभाग अधिकारी के रूप में वापस लेते हुए नियुक्त करते हैं।

आर. के. परमार, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

(प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ) का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

सं. डी-III/460/सी एफ-01/2005.—भारत के राष्ट्रपति ने श्री वाई. पी. त्रिवेदी की मुम्बई में इथोपिया संघीय प्रजातन्त्र गणराज्य के अवैतनिक कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री वाई. पी. त्रिवेदी के कौंसली क्षेत्राधिकार में मुम्बई एवम् संलग्न क्षेत्र होंगे।

पी. पी. सरकार, प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

सं. ए-12011/20/2005-प्रशा. II.—राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के सीएसएसएस के नियमित निजी सचिव श्री योगेश शर्मा को दिनांक 10 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से वित्त मंत्री के सलाहकार के वैयक्तिक स्टाफ में प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. श्री योगेश शर्मा की नियुक्ति, जब तक कि अन्यथा समाप्त न की जाए, वित्त मंत्री के वर्तमान सलाहकार के कार्यकाल के साथ चलेगी।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 दिसम्बर 2005

सं. ए-12011/22/2005-प्रशा. 2.—राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव श्री आर. चक्रवर्ती को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 12000-375-16500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 12.12.2005 के पूर्वाह्न से 30.06.2006 तक की अवधि के लिए अथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर, प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई दावा अथवा अनिश्चित काल तक बने रहने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवा की गणना उस ग्रेड में वरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजन हेतु नहीं की जाएगी और जब कभी चयन-सूची के व्यक्ति उपलब्ध होंगे उन्हें पदावनत कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

सं. ए-22011/1/2005-प्रशा. 1ए.—आर्थिक कार्य विभाग (आईईएस अनुभाग) के आदेश सं.-13016/2/2005-आईईएस, दिनांक 06.12.2005 के तहत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उनकी पदोन्नति तथा इस विभाग में तैनाती के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार सेन (आईईएस: 93) को

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक उप आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 20 दिसम्बर 2005

सं. ए-22011/1/2005-प्रशा. 1ए.—राष्ट्रपति, भा.आ.से. के अकार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) वेतनमान स्तर के अधिकारी श्री मुनीष कुमार को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 14300-400-18300/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 18 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक अपर आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

सं. पीएफजी(2178)-प्रशा.1/2005.—राष्ट्रपति, श्रीमती रीमा प्रकाश, आई.ए.एंड.ए.एस. (91) को 10 अक्टूबर, 2005 के पूर्वाह्न से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में, पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए, प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 23 दिसम्बर 2005

सं. ए-12026/8/2005/प्रशा.1.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को 10000-325-15200/- रुपए के वेतनमान में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से व अगले आदेशों तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा में नियमित आधार पर अवर सचिव (ग्रेड-1) के रूप में नियुक्त करते हैं:—

| क्रम सं. | नाम                   | अवर सचिव (ग्रेड-1) के रूप में नियमित नियुक्ति की तारीख |
|----------|-----------------------|--|
| 1.       | श्री मोहिन्दर कुमार   | 01.07.1997   |
| 2.       | सुश्री रूबीना अली     | 01.07.1999   |
| 3.       | सुश्री कमलेश भारद्वाज | 01.07.1999   |

अवर सचिव के पद पर नियमित नियुक्ति उच्च न्यायालय में श्री आर. के. आंझा एवं प्रीति श्रीवास्तव बनाम भारत संघ एवं अन्य व भारत संघ बनाम विजय कुमार व अन्य द्वारा दायर की गई याचिका के अंतिम निर्णयाधीन होगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

सं. पीएफजी(2129)-प्रशा.1/2005.—राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में उप सचिव, सुश्री बबनीलाल, (आईईएस: 87) को 02 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से उनके निजी तौर पर, उनकी बकाया समयावधि जो

04.05.2009 तक है अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए, उसी विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

सं. ए-11019/1/2005-ई.जी.—राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री उज्ज्वल नन्दी को दिनांक 28.10.2005 से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में अगले आदेशों तक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

सं. टी-49015/4/2004-बागान (क).—राष्ट्रपति द्वारा श्री आर. डी. नजीम, आई. ए. एस. (हि.प्र.: 95) को दिनांक 17 जून, 2005 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चाय बोर्ड, कून्नूर में कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अदिति दास राउत, निदेशक

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2005

सं. ए-19011/450/94-व्य-1.—राष्ट्रपति औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के स्थायी विकास अधिकारी तथा वर्तमान में तदर्थ आधार पर औद्योगिक सलाहकार (इंजी.) के रूप में कार्यरत श्री वी. के. जैन को अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर 30 नवम्बर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवामुक्त होने की अनुमति देते हैं।

ज. ज. कौर, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2005

सं. ए-60011/29/2005-स्थापना.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 19 (1) के अनुसरण में, श्री एम. एस. श्रीनिवासन, विशेष सचिव को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

तेजबीर सिंह, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

सं. ए-12034/1/99-प्रशा.—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.11.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/10/2003-सीएस-1 द्वारा वर्ष 1997 और 1999 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव ग्रेड) के ग्रेड-1 अधिकारियों की चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित

अधिकारियों के नाम शामिल करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-1 में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:—

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम                           | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक   | नियुक्ति की मानी गई तिथि  | मंत्रालय/विभाग जहां पहले कार्यरत थे |
|----------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|
|          |  | 14.11.05 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में दी गई वरिष्ठता चयन सूची वर्ष | नियुक्ति की वास्तविक तिथि | वर्तमान तैनाती                      |
| 1.       | श्रीमती गायत्री मिश्रा (सीएसएल सं. 3185) | 6  | 01.07.1997                | राष्ट्रीय महिला आयोग                |
|          |  | 1997   | 01.01.1998                | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय    |
| 2.       | श्री एम. जयरामन (सीएसएल सं. 3873)        | 27   | 01.07.1999                | वाणिज्य मंत्रालय                    |
|          |  | 1999   | 28.09.1998                | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय    |

जोस थॉमस, अवर सचिव

#### विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

सं. ए-19015/1/2005-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (एसीसी) के पत्र संख्या 22/6/2005-ईओ (एसएम-1) दिनांक 16.11.2005 के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री निखिलेश झा, आईएएस (एमटी-84) को 12 दिसम्बर, 2005 (अपराह्न) से आगे और आदेश होने तक 18400-500-22400/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 5 वर्षों की सामान्य अवधि के लिए संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्रीनिवास प्रधान, अवर सचिव

#### पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

सं. 7-2/2002/एन ए ई बी/बी-VI. --अधिवर्षितावय प्राप्त करने पर, श्रीमती आर. सुधाकरण दिनांक 30 नवम्बर, 2005 अपराह्न से 12000-375-16500/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो गई हैं और तदनुसार उन्होंने राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अवर सचिव पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ओ. पी. जोशी, अवर सचिव

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

सं. ए-12025/213/2004-सीएचएस-1.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. (सुश्री) प्रीति सैनिया को 08.08.2005 के

पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. (सुश्री) प्रीति सैनिया को डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

#### कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

सं. ए-12023/7/2004-स्था.-II/स्था. 5--राष्ट्रपति श्री बाबू राम, नियमित सहायक निदेशक (खाद), कृषि एवं सहकारिता विभाग की सहायक आयुक्त (आई एन एम) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अधि को 24 अगस्त, 2005 से 31.12.2005 अर्थात् उनके सेवानिवृत्त होने की तारीख तक के लिए बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उनको सहायक आयुक्त (आई एन एम) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के. डी. उप्रेती, उप सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

सं. 2-18/2004-मा.प्रशा.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में 03.10.2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति पर मात्स्यिकी वैज्ञानिक (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क") राजपत्रित, (अननुसचिवीय) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

1. श्री एस. ए. राजकुमार
2. श्री जे. ई. प्रभाकर राज
3. डॉ. (श्रीमती) एस. वर्गीस

वे 03.10.2005 से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा काल में रहेंगे।

पी. एल. चोपड़ा, अवर सचिव

#### लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

सं. ए-42011/(2)/2004-स्था.--इस मंत्रालय की दिनांक 2 दिसम्बर 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में राष्ट्रपति असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग में डॉ. अर्जुन के. सेनगुप्ता को आयोग के पूर्ण कार्यकाल के लिए अथवा अगले आदेशों तक दिनांक 18 नवम्बर 2005 से कॅबिनेट मंत्री के रैंक में अध्यक्ष के रूप में (पारिश्रमिक रहित) नियुक्त करते हैं।

रिछपाल, अवर सचिव

#### जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

सं. 422018/11/2004-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.10.2005 के आदेश संख्या 4/13/2005-सीएस-1 के अनुसार

में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी ग्रेड-1 अधिकारी (अवर सचिव) श्री बी. सी. दास को 26.10.2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में पदोन्नत करते हैं।

2. पदोन्नति के पश्चात् श्री बी. सी. दास को जनजातीय कार्य मंत्रालय में तैनात किया जाता है।

3. इस तदर्थ पदोन्नति से इस अधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने का अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

अनिल काकड़िया, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 नवम्बर 2005

सं. 1-32/2001-एसपीजी-I.--श्री जी. मोहनकुमार (आईपीएस-1969), सदस्य, डाक सेवा बोर्ड अधिवर्षिता प्राप्ति पर 30.11.2005 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 6 दिसम्बर 2005

सं. 26-14/2005-एसपीजी-I.--राजस्थान डाक सर्किल में तैनात श्री पी. के. सैनी, सीएमओ (एनएफएसजी) अधिवर्षिता प्राप्ति पर 30.11.2005 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

सं. ई आर बी-1/2005/3/I.--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित सहायकों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से 6,500--10,500/- रुपए (आर एस आर पी) के वेतनमान में तदर्थ आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है:--

| क्रम सं. | नाम                 | नियुक्ति की तारीख    |
|----------|---------------------|----------------------|
| 1        | 2                   | 3                    |
|          | सर्वश्री            |                      |
| 1.       | एल. सी. बिजलानी     | 06.12.05 (पूर्वाह्न) |
| 2.       | जे. एस. सामतने      | 25.11.05 (पूर्वाह्न) |
| 3.       | सी. एस. बतरा        | 01.12.05 (पूर्वाह्न) |
| 4.       | बी. राजेश           | 28.11.05 (पूर्वाह्न) |
| 5.       | एम. एस. अग्रवाल     | 25.11.05 (पूर्वाह्न) |
| 6.       | श्रीमती कुसुम चौधरी | 25.11.05 (पूर्वाह्न) |

| 1   | 2                   | 3                    |
|-----|---------------------|----------------------|
|     | सर्वश्री            |                      |
| 7.  | श्रीमती संतोष पोपली | 31.10.05 (पूर्वाह्न) |
| 8.  | श्रीमती विजय चड्ढा  | 25.11.05 (पूर्वाह्न) |
| 9.  | डी. सेन गुप्ता      | 31.10.05 (पूर्वाह्न) |
| 10. | डी. के. विश्वास     | 16.11.05 (पूर्वाह्न) |
| 11. | डी. के. मंडल        | 01.12.05 (अपराह्न)   |
| 12. | एस. मुखोपाध्याय     | 01.12.05 (पूर्वाह्न) |
| 13. | सुभाष चन्द्र-I      | 25.11.05 (पूर्वाह्न) |
| 14. | सुदीप्त सेन         | 16.11.05 (पूर्वाह्न) |
| 15. | एस. के. नेगी        | 02.12.05 (पूर्वाह्न) |
| 16. | बी. के. नंदा        | 31.10.05 (पूर्वाह्न) |

एम. के. अग्रवाल, सचिव, (रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

सं. ए-22012/1/2005-स्था.-II(बी).--राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में गृह मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के प्रधान निजी सचिव, श्री वी. पी. शर्मा की सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में दिनांक 08.12.2005 (पूर्वाह्न) से 12,000--16,500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में दिनांक 30.06.2006 तक अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्ति करते हैं।

ए. पी. पांडी, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 29/2005-मि.सं.ए-38012/1/2005-प्रशा.-I.--राष्ट्रपति, श्री गिरिश कुमार गुप्ता को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-'क') सेवा में सहायक निदेशक ग्रेड-1/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में 15 दिसम्बर 2005 के अपराह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री गिरिश कुमार गुप्ता, दो वर्ष की अवधि तक परीक्षाधीन रहेंगे।

आर. सी. अरोरा, अवर सचिव

सं. 30/2005-मि.सं.ए-38012/1/2005-प्रशा.-I.--राष्ट्रपति, श्री रजत कुमार सरकार को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-'क') सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड-1/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में 19 दिसम्बर 2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री रजत कुमार सरकार, दो वर्ष की अवधि तक परीक्षाधीन रहेंगे।

आर. सी. अरोरा, अवर सचिव

सं. 28/2005-मि.सं.ए-38012/1/2005-प्रशा.1.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री एस. एस. यात्री, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-‘क’) सेवा में निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 नवम्बर, 2005 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. अरोरा, अवर सचिव

#### जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

सं. 27/2005, (फाईल संख्या-25/2(16)/2004.-स्थापना एक).—इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2003 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति, श्रीमती सुदीक्षा रानी को दिनांक 04.10.2005 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप ‘क’) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु. 8,000--13,500/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती सुदीक्षा रानी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 29/2005, (फाईल संख्या-25/2(15)/2004.-स्थापना एक).—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2003 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति, श्री अजीत सिंह को दिनांक 07.11.2005 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप ‘क’) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु. 8,000--13,500/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री अजीत सिंह, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

सं. 30/2005, (फाईल संख्या-25/2(11)/2004.-स्थापना एक).—इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2003 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति, श्री बी. मोहन मुरली को दिनांक 07.10.2005 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप ‘क’) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु. 8,000--13,500/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री बी. मोहन मुरली कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

दिनांक 22 दिसम्बर 2005

सं. 22/2005 (फाईल संख्या-30/3/2005.-स्थापना एक).—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह ‘क’) सेवा के कनिष्ठ समयमान के अधिकारी श्री जयन्त कुमार गुप्ता केन्द्रीय जल आयोग, दिनांक 25.08.2005 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. राजप्पा, अवर सचिव

#### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 07 नवम्बर 2005

सं. 1/53/2005-एम.यू.सी. (II).—सक्षम प्राधिकारी, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के श्री पंकज निगम तकनीकी सहायक (विज्ञापन) को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सहायक मीडिया निष्पादक (समूह ‘ख’ राजपत्रित, अनुसचिवीय) के पद पर 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 28.09.2005 की पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा इस पद को नियमित पद्धति से भरे जाने तक, जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर पदोन्नत करते हैं।

एस. बी. कृष्णन, अवर सचिव

#### श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

सं. ए-11016/1/2004-सी.एल.एस.-II.---इस मंत्रालय के आदेश संख्या ए-11016/1/2004-सी.एल.एस.-II, दिनांक 21.10.2005 का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि न्यायाधीश घनश्याम दास (सेवा निवृत्त), जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-ख के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक-सह-श्रम न्यायालय-I, मुंबई के नियमित स्थायी आधार पर पीठासीन अधिकारी भी होंगे। न्यायाधीश घनश्याम दास (सेवा निवृत्त), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-ग के उपबंधों के अधीन अगले आदेशों तक केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-II, मुंबई के पीठासीन अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।

पी. के. ताम्रकार, अवर सचिव

सं. 28/2005, (फाईल संख्या-25/2(9)/2004.-स्थापना एक).—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2003 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री विनय कुमार वर्मा को दिनांक 05.12.2005 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप ‘क’) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु. 8,000--13,500/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री विनय कुमार वर्मा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 22nd November 2005

No. 5/1(2)/2005-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

| Sl. No. | Name                   | Post                  | Date of Resignation |
|---------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|         | Shri/Smt./Kum.         |                       |                     |
| 1.      | Dr. K. Badari Narayana | Scientist/Engineer-SF | 28.02.2005          |
| 2.      | Bhuvaneswari K. R.     | Scientist/Engineer-SD | 28.02.2005          |
| 3.      | Sudha K. S.            | Scientist/Engineer-SC | 10.03.2005          |
| 4.      | Pankaj Kumar Jha       | Scientist/Engineer-SD | 18.03.2005          |
| 5.      | Manoj Kumar Uikey      | Scientist/Engineer-SC | 24.01.2005          |
| 6.      | Nidhi Arora            | Scientist/Engineer-SC | 02.02.2005          |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

No. 5/1(2)/2005-I.—Consequent on attaining the age of superannuation Shri M. L. N. Sastry, Scientist/Engineer-SG in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 28.02.2005.

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2005-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2005 and until further orders:—

| Sl. No. | Name              |
|---------|-------------------|
| 1       | 2                 |
|         | Shri/Smt./Kum.    |
| 1.      | J. Kalai Selvi    |
| 2.      | Sanjay Mittal     |
| 3.      | Sanjoy Paramanik  |
| 4.      | B. Subramanian    |
| 5.      | Lalitha K.        |
| 6.      | Tirumala Rao Koka |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 1   | 2                  |
|     | Shri/Smt./Kum.     |
| 7.  | S. Murugiah        |
| 8.  | Binu D.            |
| 9.  | Rajeswari          |
| 10. | Chithra N.         |
| 11. | K. N. Syamala Devi |
| 12. | K. Sreeshan        |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2005-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineers-SE in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2005 and until further orders:—

| Sl. No. | Name                   |
|---------|------------------------|
| 1       | 2                      |
|         | Shri/Smt./Kum.         |
| 1.      | Dinesh Chandra         |
| 2.      | A. Atchamamba          |
| 3.      | Santhosh Hebbar, P     |
| 4.      | Jasavanth, V. S.       |
| 5.      | Shree Niwas Sahu       |
| 6.      | V. Venkata Reddy       |
| 7.      | J. Madan Mohan Reddy   |
| 8.      | Rajendrasingh P. Byali |
| 9.      | Jayasimha, P           |
| 10.     | Bijaya Kumar Behera    |
| 11.     | Dinakaran, E           |
| 12.     | D. Pullaiah            |
| 13.     | B. Lakshmi Narayana    |
| 14.     | Bindu, K. R.           |
| 15.     | T. S. Siddaraja        |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2005-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SE as Scientists/Engineers-SF in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2005 and until further orders:—



| Sl. No. | Name                |
|---------|---------------------|
| 1       | 2                   |
|         | Shri/Smt./Kum.      |
| 1.      | M. Venkatanarayana  |
| 2.      | M. S. Srinivasan    |
| 3.      | O. V. Raghava Reddy |
| 4.      | S. Sathya Niranjan  |
| 5.      | Paramjeet Singh     |
| 6.      | L. Suvarna          |
| 7.      | L. Mruthyunjaya     |
| 8.      | M. Neelavathy       |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2005-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SF as Scientists/Engineers-SG in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2005 and until further orders:—

| Sl. No. | Name                        |
|---------|-----------------------------|
| 1       | 2                           |
|         | Shri/Smt./Kum.              |
| 1.      | Pradeep Kumar Gupta         |
| 2.      | P. J. V. K. S. Prakasha Rao |
| 3.      | M. Venkateswara Rao         |
| 4.      | U. Prabhakaran              |
| 5.      | Annie Nelson                |
| 6.      | K. S. Balan                 |
| 7.      | M. Sugumar                  |
| 8.      | H. N. Bhagavan              |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2005-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2005 and until further orders:—

| Sl. No. | Name           |
|---------|----------------|
| 1       | 2              |
|         | Shri/Smt./Kum. |
| 1.      | K. Lakshmaiah  |
| 2.      | P. V. Jithesh  |
| 3.      | Vidya V.       |

| 1   | 2                    |
|-----|----------------------|
|     | Shri/Smt./Kum.       |
| 4.  | Mohd. Afzal Usmani   |
| 5.  | Gomathi Saratha, C   |
| 6.  | Ajay Andhiwal        |
| 7.  | Pankaj Kumar Jha     |
| 8.  | P. Vijayasree        |
| 9.  | R. Jothi             |
| 10. | U. Rama Subrahmanyam |
| 11. | Narayana Swamy H. P. |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

No. 5/1(2)/2005-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2005 and until further orders:—

| Sl. No. | Name                   | Post from which promoted | Post to which promoted |
|---------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|         | Shri/Smt./Kum.         |                          |                        |
| 1.      | Ramanand Tyagi         | Scientist/Engineer-G     | Scientist/Engineer-H   |
| 2.      | Chakrapani Navada, K.  | Scientist/Engineer-G     | Scientist/Engineer-H   |
| 3.      | K. Suryanarayana Sarma | Scientist/Engineer-SG    | Scientist/Engineer-G   |
| 4.      | B. Venkata Rao         | Scientist/Engineer-SG    | Scientist/Engineer-G   |
| 5.      | B. S. Nataraju         | Scientist/Engineer-SG    | Scientist/Engineer-G   |
| 6.      | T. Nagendra            | Scientist/Engineer-SB    | Scientist/Engineer-SC  |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 7th December 2005

No. A-19015/5/94-Admn.V.—On repatriation from deputation to the post of Senior Administrative Officer in the National Centre of Organic Farming, Ghaziabad the President is pleased to take back the services of Shri Shashi Pal as Section Officer in Planning Commission w.e.f. 1st December, 2005 (FN).

R. K. PARMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 7th December 2005

No. D-III/460/CF-01/2005.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Y. P. Trivedi

as Honorary Consul of the Federal Democratic Republic of Ethiopia in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Y. P. Trivedi comprises the city of Mumbai and its environs.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 15th December 2005

No. A-12011/20/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Yogesh Sharma, a regular Private Secretary of CSSS of Finance Cadre as Principal Private Secretary in the personal staff of Adviser to Finance Minister with effect from the forenoon of 10th August, 2005.

2. The appointment of Shri Yogesh Sharma will be on co-terminus basis with the tenure of the present Adviser to Finance Minister, unless terminated otherwise.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

The 16th December 2005

No. A-12011/22/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri R. Chakraborty, Principal Private Secretary of CSSS of Finance Cadre as Senior Principal Private Secretary in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis w.e.f. 12.12.2005 (FN) for the period upto 30.06.2006 or till the post is filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion of above officer shall not confer on him any claim for regular appointment or the right to continue indefinitely in the grade of Senior Principal Private Secretary of CSSS. The service rendered by him on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade or for eligibility for promotion to the next higher grade and he will be reverted as and when Select List persons become available.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 16th December 2005

No. A-22011/1/2005-Admn.IA.—Consequent upon his promotion to Junior Administrative Grade and his posting to this Department vide Department of Economic Affairs (IES Section's) Order No. 13016/2/2005-IES dated 06.12.2005, the President is pleased to appoint Shri Rajib Kumar Sen (IES: 93) as Deputy Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs with effect from the forenoon of 13th December 2005 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 20th December 2005

No. A-22011/1/2005-Admn.IA.—The President is pleased to appoint Shri Munish Kumar, a Non-Functional Selection Grade (NFSG) Scale Level Officer of IES, as Additional Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 with effect from the forenoon of 18th November, 2005 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 22nd December 2005

No. PFG(2178)/Admn.I/2005.—The President is pleased to appoint Ms. Reema Prakash, IA&AS (91) as Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, on deputation basis w.e.f. the forenoon of 10th October, 2005 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 23rd December 2005

No. A-12026/8/2005-Ad.I.—The President is pleased to appoint the following Officers of Central Secretariat Service to Grade I (Under Secretary) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis with effect from the dates mentioned against their name and until further orders:—

| Sl. No. | Name                 | Date of appointment to the Under Secretary Grade |
|---------|----------------------|--|
|         | S/Shri               |  |
| 1.      | Mohinder Kumar       | 01.07.1997                                       |
| 2.      | Ms. Rubina Ali       | 01.07.1999                                       |
| 3.      | Ms. Kamlesh Bhardwaj | 01.07.1999                                       |

2. The appointment of officers to the post of Under Secretaries shall be subject to the final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R. K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava Vs. UOI and Others. and UOI Vs. Vijay Kumar & Others.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

No. PFG(2129)/Admn.I/2005.—The President is pleased to appoint Ms. Babni Lal, (IES: 87), Deputy Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure as Director in the same Department as a measure personal to her with effect from the forenoon of 2nd December, 2005 for the balance period of her tenure which would be up to 04.05.2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

New Delhi, the 26th December 2005

No. A-11019/1/2005-EG.—The President has been pleased to appoint Shri Ujjwal Nundy of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Principal Accountant General (Audit, West Bengal, Kolkata in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 28.10.2005 until further orders.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

##### (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 20th December 2005

No. T-49015/4/2004-Plant(A).—The President is pleased to appoint Shri R. D. Nazeem, IAS (HP: 1995) as Executive Director, Tea Board, Coonoor for a period of four years with effect from the forenoon of 17th June, 2005 or until further orders, whichever is earlier.

ADITI DAS ROUT, Director

#### (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 30th November 2005

No. A-19011/450/94-E.I.—The President is pleased to permit Shri V. K. Jain, a permanent Development Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, and presently officiating as Industrial Adviser (Engg.) on ad-hoc basis, to retire from Government service, with effect from the afternoon of 30th November, 2005, on his attaining the age of superannuation.

J. J. KAUR, Under Secy.

#### MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 29th November 2005

No. A-60011/29/2005-Estt.—In pursuance of Section 19(1) of the Right to information Act, 2005 (No. 22 of 2005), Shri M. S. Srinivasan, Special Secretary is designated as the Appellate Authority in the Ministry of Petroleum & Natural Gas.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 20th December 2005

No. A-12034/1/99-Admn.—Consequent upon the inclusion of their names in the Select List of Grade I Officers of CSS (Under Secretary Grade) for the years 1997 and 1999 by the DOP&T vide their OM No. 4/10/2003-CS.I dated 14.11.2005, the President is pleased to appoint the following officers of Central Secretariat Service to the

Grade I of CSS (Under Secretary) on a regular basis as per details indicated below:—

| Sl. No. | Name of the Officer                | Seniority assigned in Grade-I of CSS as per DOP&Ts O. M. dated 14.11.2005 Select List Year | Deemed date of appointment Actual date of appointment | Ministry/ Department/ Office where worked earlier Present posting |
|---------|------------------------------------|--|---|---|
| 1.      | Smt. Gayatri Mishra (CSL No. 3185) | 6<br>—<br>1997   | 1.7.1997<br>—<br>1.1.1998                             | National Commission for Women<br>—<br>MFPI                        |
| 2.      | Sh. M. Jayaraman (CSL No. 3873)    | 27<br>—<br>1999  | 1.7.1999<br>—<br>28.9.98                              | Mini. of Commerce<br>—<br>MFPI                                    |

JOSE THOMAS, Under Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

##### (DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 20th December 2005

No. A-19015/1/2005-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training, (ACC) communication No. 22/6/2005-EO(SM-I) dated 16.11.2005, the President is pleased to appoint Sh. Nikhilesh Jha, IAS (MT-84) as Joint Secretary in the Department of Scientific & Industrial Research in the scale of pay of Rs. 18400-500-22,400 for a normal tenure of 5 years w.e.f 12th December 2005 (AN), and until further orders.

SRINIBAS PRADHAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

##### NATIONAL AFFORESTATION AND ECO-DEVELOPMENT BOARD

New Delhi, the 01st December 2005

No. 7-2/2002/NAEB/B-VI.—On attaining the age of superannuation, Smt. R. Sudhakaran, Under Secretary in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 has retired from Government Service in the afternoon of 30th November 2005 and accordingly she relinquished charge to the post of Under Secretary in the National Afforestation and Eco-Development Board, Ministry of Environment and Forests.

O.P. JOSHI, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

##### (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 26th December 2005

No. A. 12025/213/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission,

the President is pleased to appoint Dr. (Ms.) Preeti Sainia to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 8.8.2005 until further orders. Dr. (Ms.) Preeti Sainia is posted as Medical Officer under Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 20th December 2005

No. 12023/7/2004-E.II/E.V.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Babu Ram, a regular Assistant Director (Manures), in the Department of Agriculture & Cooperation, in the post of Assistant Commissioner (INM) w.e.f. 24th August 2005 upto 31.12.2005 i.e. the date of his retirement.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Assistant Commissioner (INM).

K.D. UPRETI, Dy. Secy.

#### (DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi, the 27th December 2005

No. 2-18/2004-Fy.Admn.—The President is pleased to appoint the following Officers on promotion to the post of Fisheries Scientist (General Central Service Group 'A') Gazetted, (Non-Ministerial) on regular basis in Fishery Survey of India, Mumbai in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from 03.10.2005 (FN):—

1. Shri S.A. Rajkumar
2. Shri J.E. Prabhakar Raj
3. Dr. (Mrs.) S. Varghese

They will be placed on probation from a period one year w.e.f. 03.10.2005.

P. L. CHOPRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 12th December 2005

No. A-42011(2)/2004-Estt.—In supersession of this Ministry's Notification of even number dated 2nd December, 2005, the President is pleased to appoint Dr. Arjun K. Sengupta as Chairman (without remuneration) in the rank of Cabinet Minister in the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector with effect from 18th November, 2005 for the full tenure of the Commission or until further orders.

RICHH PAL, Under Secy.

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th December 2005

No. 42018/11/2004-Estt(TA)—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/13/2005-CS.I dated 26.10.2005, the President is pleased to promote Shri B.C. Das, substantive Grade-I officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service to Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 26.10.2005 until further orders.

2. On his promotion Shri B.C. Das is posted in the Ministry of Tribal Affairs.

3. This ad-hoc promotion shall not confer on the officer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ANIL KAKRIA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & I.T.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 30th November 2005

No. 1-32/2001-SPG.—Shri G. Mohanakumar (IPoS-1969), Member, Postal Services Board is retiring on superannuation from Government service w.e.f. 30.11.2005 (AN).

B.P. PANT  
Asst. Director General (SGP)

The 06th December 2005

No. 26-14/2005-SPG—Shri P.K. Saini, CMO(NFSG) of CGHS Cadre posted in Rajasthan Postal Circle has retired on superannuation from Govt. service w.e.f. 30.11.2005 (AN).

B.P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

#### MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 20th December 2005

No. ERB-1/2005/3/1—The following Assistants of Railway Board have been appointed as Section Officers of Railway Board Secretariat Service, on ad-hoc basis in the scale of Rs. 6500-10500/- (RSRP) with effect from the date shown against each:—

| S.No. | Name           | Date of appointment |
|-------|----------------|---------------------|
|       | (S/Shri)       |                     |
| 1.    | L.C. Bijlani   | 06.12.2005 (FN)     |
| 2.    | J.S. Samataney | 25.11.2005 (FN)     |

| 1   | 2                    | 3               |
|-----|----------------------|-----------------|
| 3.  | C.S. Batra           | 01.12.2005 (FN) |
| 4.  | B. Rajesh            | 28.11.2005 (FN) |
| 5.  | M.S. Agarwal         | 25.11.2005 (FN) |
| 6.  | Mrs. Kusum Choudhary | 25.11.2005 (FN) |
| 7.  | Mrs. Santosh Popli   | 31.10.2005 (FN) |
| 8.  | Mrs. Vijay Chadha    | 25.11.2005 (FN) |
| 9.  | D. Sengupta          | 31.10.2005 (FN) |
| 10. | D.K. Biswas          | 18.11.2005 (FN) |
| 11. | D.K. Mandal          | 01.12.2005 (AN) |
| 12. | S. Mukhopadhyay      | 01.12.2005 (FN) |
| 13. | Subhash Chander-I    | 25.11.2005 (FN) |
| 14. | Sudipta Sen          | 16.11.2005 (FN) |
| 15. | S.K. Negi            | 02.12.2005 (FN) |
| 16. | B.K. Nanda           | 31.10.2005 (FN) |

M.K. AGARWAL, Secy. Railway Board

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 16th December 2005

No. A. 22012/1/2005-E.II(B)—The President is pleased to appoint Shri V.P. Sharma, Principal Private Secretary of CSSS cadre of the Ministry of Home Affairs in the Ministry of Statistics & Programme Implementation as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Department of Road Transport & Highways in the scale of Rs. 12000-16500/- with effect from 8.12.2005(FN) for the period upto 30.06.2006 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

A.P. PADHI, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 21st December 2005

No. 29/2005 F.No. A-38012/1/2005-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri Girish Kumar Gupta in the grade of Assistant Director Grade-1/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority with effect from 15th December, 2005 (Afternoon.) until further orders.

2. Shri Girish Kumar Gupta will be on probation for a period of two years.

R.C. ARORA, Under Secy.

No. 30/2005 F.No. A-38012/1/2005-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri Rajat Kumar Sarkar in the grade of Assistant Director Grade-1/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority with effect from 19th December, 2005 (F.N.) until further orders.

2. Shri Rajat Kumar Sarkar will be on probation for a period of two years.

R.C. ARORA, Under Secy.

No. 28/2005. F.No. A-38012/1/2005-Adm.I.—Shri S.S. Yatri, Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th November, 2005 on attaining the age of superannuation.

R.C. ARORA, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 20th December 2005

No. 27/2005 (F.No. 25/2/(16)/2004-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2003 the President is pleased to appoint Smt. Sudiksha Rani to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group- 'A') Service in the scale of Rs. 8000-13,500/- in the Central Water Commission with effect from 04.10.2005 (FN).

2. Smt. Sudiksha Rani will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

The 21st December 2005

No. 29/2005 (F.No. 25/2/(15)/2004-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2003 the President is pleased to appoint Shri Ajeet Singh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group- 'A') Service in the scale of Rs. 8000-13,500/- in the Central Water Commission with effect from 07.11.2005 (FN).

2. Shri Ajeet Singh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 28/2005 (F.No. 25/2/(9)/2004-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2003 the President is pleased to appoint Shri Vinai Kumar Verma to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer

(Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8000-13,500/- in the Central Water Commission with effect from 05.12.2005 (FN).

2. Shri Vinai Kumar Verma will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 30/2005 (F.No. 25/2/(11)/2004-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2003 the President is pleased to appoint Shri V. Mohan Murali to Officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8000-13,500/- in the Central Water Commission with effect from 07.10.2005 (FN).

2. Shri V. Mohan Murali will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

The 22nd December 2005

No. 22/2005 (F.No. 30/3/2005-E.I.)—Consequent upon acceptance of resignation from Central Water Engineering (Group-A) Service, Shri Jayant Kumar Gupta, Assistant Director/Assistant Executive Engineer, Central Water Commission is relieved of his duties with effect from 25.08.2005 (AN).

K. RAJAPPA, Under Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 7th November 2005

No. 1/53/2005-MUC (II).—The Competent Authority is pleased to promote Shri Pankaj Nigam, Technical Assistant (Advertising) in the Directorate of Advertising & Visual Publicity (DAVP), to the post of Assistant Media Executive (Group B, Gazetted, Non-Ministerial) in the Directorate of Advertising & Visual Publicity, Ministry of Information & Broadcasting on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 28.09.2005 for a period of one year or until the post is filled up by regular method, whichever is earlier.

S. V. KRISHNAN, Under Secy.

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 16th December 2005

No. A-11016/1/2004-CLS-II.—In supersession of this Ministry's order No. A-11016/1/2004-CLS-II dated the 21st October, 2005, it has been decided that Justice Ghanshyam Dass (retired), appointed as Presiding Officer of the National Tribunal under the provision of Section 7-B of the Industrial Disputes Act, 1947 will also be the Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-I Mumbai on a regular substantive basis. Justice Ghanshyam Dass (retired) will also hold the additional charge of the post of Presiding Officer of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Mumbai subject to the provisions of Section 7C of the Industrial Disputes Act, 1947 and until further orders.

P. K. TAMRAKAR, Under Secy.